



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 12 जून 2022

थाना नरौरा

हरिशचन्द हत्याकाण्ड में संलिप्त 02 हत्यारोपी थाना नरौरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार-

ज्ञात हो कि दिनांक 10/11.06.2022 की रात्रि में थाना नरौरा क्षेत्र के ग्राम चौद्रेरा निवासी हरिशचन्द्र पुत्र स्व0 नौबत सिंह की खेत में पानी लगाकर आते समय गांव के ही अभियुक्त दुर्गेश पुत्र जानकी प्रसाद, जगदीश उर्फ हैप्पी पुत्र रामवीर सिंह व राजेश पुत्र सियाराम द्वारा ईंट, पत्थर, डंडे से सिर व चेहरे पर चोट पहुंचाकर हत्या कर शव को उसकी ट्यूबवैल की कुंडी(हौद) में डाल दिया था। घटना के संबंध में मृतक के भाई की तहरीर पर थाना नरौरा पर मुअसं-140/2022 धारा 302 भादवि बनाम दुर्गेश, जगदीश उर्फ हैप्पी व राजेश उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 12.06.22 को थाना नरौरा पुलिस को अभिसूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त हत्याकाण्ड में संलिप्त अभियुक्त दुर्गेश व राजेश पिलखना वाले बम्बे की पुलिया के पास डिस्कवर बाइक पर बैठे हैं जो कहीं जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर नरौरा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त डिस्कवर बाइक सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों की निशादेही पर आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1- दुर्गेश पुत्र जानकी प्रसाद निवासी ग्राम चौद्रेरा थाना नरौरा जनपद बुलंदशहर।
- 2- राजेश पुत्र सियाराम निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

- 1- घटना में प्रयुक्त डिस्कवर बाइक
- 2- आलाकत्ल डण्डा

हत्या का कारण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मृतक हरिशचन्द द्वारा वर्ष-1995 में अभियुक्त दुर्गेश की दादी की हत्या कर दी गई थी तथा अभियुक्त जगदीश उर्फ हैप्पी की माता को भी गोली मारकर घायल किया गया था और कुछ दिन पहले अभियुक्त राजेश के साथ भी मारपीट की गई थी। इन्हीं रंजिश के कारण तीनों अभियुक्तों द्वारा हरिशचन्द की हत्या करने की योजना बनाई। योजनानुसार गांव के बाहर विक्रम प्रधान की ट्यूबवैल पर हरिशचन्द अक्सर बैठकर शराब पीता था जहां पर दिनांक 10-06-22 की रात्रि में तीनों अभियुक्तगण हरिशचन्द का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही हरिशचन्द खेतों की तरफ से अपनी पत्नी के साथ आया और अभियुक्तों को देखते गाली गलौज व मारपीट करने लगा तथा घटना को देखकर हरिशचन्द्र की पत्नी गांव की तरफ भागी। इसी बीच तीनों अभियुक्तों द्वारा मिलकर हरिशचन्द को जमीन पर गिराकर ट्यूबवैल के पास पड़ी ईंट व डंडों से हरिशचन्द के सिर व चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर शव को अपनी डिस्कवर मोटरसाइकिल पर रखकर हरिशचन्द की ट्यूबवैल पर बनी कुंडी(हौदी) में उसके शव को डालकर फरार हो गए थे।

अभियुक्तों गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नरौरा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस टीम-

- 1- श्री अजीत सिंह थाना प्रभारी नरौरा
- 2- का0 सोनू सिंह, का0 अजीत सिंह, है0का0 चालक अलाउदीन

